



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 565]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 1978/पौष 5, 1900

No. 565]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 1978/PAUSA 5, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1978

का० आ० 728 (अ०)—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, देना बैंक के अनुसूच पर 26 दिसम्बर, 1978 से कच्छ ग्रामीण बैंक नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक गुजरात राज्य के कच्छ जिले की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा।

[संख्या एफ० 1-4/78-आर० आर० बी० (I)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd December, 1978

S.O. 728(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government being requested so to do by the Dena Bank, establishes, with effect from the 26th December, 1978, a Regional Rural Bank in the State of Gujarat under the name of Kutch Gramin Bank, which

974 GI/78

shall operate within the local limits of the district of Kutch in the State of Gujarat.

[No. F. 1-4/78-RRB(I)]

का० आ० 729 (अ०)—प्रादेशिक बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा कच्छ ग्रामीण बैंक के प्रायोजक देना बैंक के परामर्श से जिला कच्छ में स्थित भुज को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है जहाँ पर कच्छ ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ० 1-4/78-आर० आर० बी० (II)]

S.O. 729(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Dena Bank, by which Kutch Gramin Bank has been sponsored, specifies Bhuj in the District of Kutch as the place where Kutch Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-4/78-RRB(II)]

का० आ० 730 (अ०)—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (III) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कच्छ ग्रामीण बैंक को उक्त उप-खंड के प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम,

(1591)

1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्याएक० 1-4/78-भार०भार०बी० (III)]

कु० कुसुमलता मिश्र संयुक्त सचिव

S. O. 730(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of the sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Kutch Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-4/78-RRB(III)]

K.M. KUSUM LATA MITAL, Jt. Secy

भारतीय रिजर्व बैंक

(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग)

अधिसूचना

बम्बई 23 दिसम्बर, 1978

का० प्रा० 731 (अ०):—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की उपधारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के

अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात्:—

कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज।

[डी०बी०प्रो०बी० नं० 159/आई०एन०सी० एस०/सी० 102-78]

के० एस० कृष्णस्वामी, उप-गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

NOTIFICATION

Bombay, 23rd December, 1978

S.O. 731(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Kutch Gramin Bank, Bhuj.

[DBOD. No. 159/INCL/C. 102-78]

K. S. KRISHNASWAMY, Dy. Governor.